



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1983/फाल्गुन 11, 1904  
No. 103] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 1983/PHALGUNA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1983

का० आ० 155(अ) —केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 का (जिसे इसमें हमके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का मूल नाम सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे।

2 उक्त नियमों के नियम 14 के अन्तर्गत —

(क) उपनियम (3) में, “किमी अफसर की,” शब्दों के स्थान पर “किसी अफसर या सूत्रदार की” शब्द रखे जाएंगे

(ख) उपनियम (4) की पड़ती पंक्ति में, “बल का कोई अफसर”— शब्दों के पश्चात् “या सूत्रदार” शब्द अन्तर्स्थापित किए जाएंगे।

3 उक्त नियमों के नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“23क किसी आपराधिक आरोप पर सिद्धोप ठहराए जाने पर सेवा का पर्यवेक्षण —जब कोई व्यक्ति को अधिनियम के अधीन

है किसी सिविल अपराध के लिए सिद्धोप ठहराया जाता है तब सक्षम प्राधिकारी उसकी कोई जांच कराए बिना या हेतुक वर्णित करने के लिए सूचना जारी किए बिना, सेवा से पवंच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा।”

4 उक्त नियमों के नियम 121 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

“121 जनरल/पेट्री सुरक्षा बल न्यायालय की कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन —जनरल और पेट्री सुरक्षा बल न्यायालय की कार्यवाहियां, उनको अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति द्वारा मुख्य विधि अफसर का पुनर्विलोकन के लिए भेजी जाएगी और वह उसको पुष्टिकर्ता प्राधिकारी को अग्रप्रेषित करेगा।”

टिप्पण —अमूल अधिसूचना भारत के राजपत्र 1969 असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) के पृष्ठ सं० 739-797 पर अधिसूचना सं० का०आ० 2336 तारीख 9 जून 1969 के रूप में प्रकाशित तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित —

- (i) अधिसूचना सं०का०आ० 1362 तारीख 7 अप्रैल, 1970
- (ii) अधिसूचना सं०का०आ० 4030 तारीख 21 अक्तूबर, 1971
- (iii) अधिसूचना सं० का०आ० 5087 तारीख 6 नवम्बर, 1971
- (iv) अधिसूचना सं०का०आ० 329(अ) तारीख 29 अप्रैल, 1981।

[गं० 17/96/81-ओ०आर०जी०/डी० एम० एफ० (पर्स-II)]

गोपाल कृष्ण, डेस्क अधिकारी

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1983

**S.O. 155()**.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said rules) namely :—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 14A of the said rules—

(a) in sub-rule (3), after the words "grant to an officer", the words "or subedar" shall be inserted;

(b) in sub-rule (4), after the words "An Officer" the words "or Subedar" shall be inserted.

3. In the said rules, after rule 23, the following rule shall be inserted namely,

"23A. Termination of service on conviction on a criminal charge:—

When a person subject to the Act is convicted of a civil offence the competent authority may dismiss

or remove him from service without holding any inquiry or issuing a show cause notice."

4. For rule 121 of the said rules, the following rule shall be substituted namely :—

"12-Review of General/Petty Security Force Court proceedings:—

The proceedings of a General and Petty Security Force Court shall be sent by the person having the custody thereof to the Chief Law Officer for review, who shall then forward the same to the confirming authority."

"Note. Principal rules published vide Notification No. S.O. 2336 dated 9 June, 1969. Gazette of India 1969/(Extraordinary) part II, Section 3, Sub-Section (ii) page 739-797,

Subsequently amended by :—

(i) Notification No. S.O. 1362 dated 7 April, 1970.

(ii) Notification No. SO. 4034 dated 21 October, 1971.

(iii) Notification No. 5087 dated 6 November, 1971.

(iv) Notification No. S.O. 329(E), dated 29 April 1981."

[No. 17/96/81-ORG/BSF(Pers.II)]  
GOPAL KISHAN, Desk Officer